

# भारत-निर्माता

भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के निर्माण में योग देनेवाले

प्रतिनिधि महापुरुषों के शब्द-चित्र

[ मनु से अहल्याबाई तक ]

HINDUSTANI ACADEMY  
Hindi Section

Lit. No. 22.4.5.

Date of Receipt... 4.12.19

लेखक

कृष्णावल्लभ द्विवेदी

संपादक, 'हिन्दी विश्व-भारती'

920  
327

चित्रकार

पन्नालाल

( आवरण-पृष्ठ का चित्र श्री० वीरेश्वर सेन द्वारा )

: लखनऊ :

एजुकेशनल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड